



जनपद गाजियाबाद

प्रेस नोट

दिनांक 02.03.21

**गाजियाबाद पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिशाल**

दिनांक 1/3 /2021 को समय करीब रात्रि 9:00 बजे तुराब नगर से घर जाते समय श्रीमती तुलसी कंसल पत्नी श्री चंदन कंसल निवासी मकान नंबर ए-91 पटेल नगर द्वितीय, थाना सिहानी गेट गाजियाबाद का एक बैग रास्ते में घंटाघर क्षेत्र के आसपास गिर गया था, जिसमें सैमसंग A7 मोबाइल तथा ₹12800 थे, जिसे थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद की पीसी-3 पर तैनात कॉन्स्टेबल 817 जितेंद्र कुमार तथा चालक रफीक अहमद द्वारा ईमानदारी का परिचय देते हुए थाने पर लाया गया तथा श्रीमती तुलसी कंसल को द्वारा टेलीफोन कर थाना कोतवाली नगर पर बुलाकर सुपुर्द किया गया तथा कंसल दंपत्ति द्वारा पुलिस के प्रति विश्वास एवं खुशी जाहिर कर गाजियाबाद पुलिस का तह दिल से धन्यवाद किया गया ।



**गाजियाबाद पुलिस ने पेश की ईमानदारी की मिशाल**

श्रीमान जी आज एक महिला डा.श्वेता पत्नी जितेंद्र प्रताप का बैग क्लीनिक जाते समय रास्ते में गिर गया था जो पीसी-26 पर तैनात कर्मचारियों को रास्ते में ही पडा हुआ मिला। बैग में करीब ₹11000 मोबाइल व अन्य कीमती सामान भी थे, पुलिसकर्मियों द्वारा महिला का पता लगाकर चौकी वैशाली, थाना कौशाम्बी पर ही बैग मय सामान के महिला व उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। खोया बैग वापिस मिलने पर महिला व उसके परिजनों द्वारा पुलिस के प्रति विश्वास एवं खुशी जाहिर कर गाजियाबाद पुलिस का तह दिल से धन्यवाद किया गया ।



**#Ghaziabad- पुलिस की अपराधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई, 07 शातिर/अभ्यस्त लुटेरों के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन में जनपदीय पुलिस शातिर हत्या, लूट / चोरी एवं डकैती करने वाले हार्डकोर अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई कर रही है।

इसी क्रम में थाना कविनगर द्वारा लूट/ डकैती करने वाले 07 अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।

### **अभियुक्त गण का नाम-**

1. आफताब पुत्र मंजूर आलम
2. खलील उर्फ मौहम्मद नईम पुत्र लतीफ
3. राजू उर्फ अल्लतमस उर्फ अजय पुत्र किशन सिंह
4. शमशेर उर्फ आजाद पुत्र कालू
5. मौहम्मद सुमन उर्फ अव्वल पुत्र मौहम्मद अली
6. खुर्शीद पुत्र आलम
7. ताहिर पुत्र इसरा

एसएसपी द्वारा सभी क्षेत्राधिकारियों एवम थाना प्रभारियों को ऐसे सभी अपराधियों को चिन्हित करते हुए इनके विरुद्ध लगातार यह अभियान जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं

**साईबर सैल गाजियाबाद व थाना कविनगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी आधार कार्ड बनाकर व OLX पर फर्जी आईडी तैयार कर वैगनआर कार पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर बेचना व उसी कार को चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया कब्जे से चोरी की फर्जी नम्बर प्लेट लगी वैगआर कार बरामद**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद गाजियाबाद द्वारा धोखाधड़ी करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे आपरेशन 420 के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर, श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम (साईबर सैल) व प्रभारी निरीक्षक कविनगर पुलिस के कुशल निर्देशन में थाना कविनगर व साईबर सैल की गठित संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 02.03.2021 को थाना कविनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 207/2021 धारा 379/411/482 भादवि का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त प्रशांत त्यागी पुत्र सुबोध त्यागी निवासी ग्राम देहरी गुर्जर थाना आमदपुर जिला अमरोहा को समय 01.05 बजे कार्टेज चौराहा शास्त्रीनगर थाना क्षेत्र कविनगर से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित चोरी की वैगनआर कार नं0 UP80DJ 2750 (फर्जी नम्बर) बरामद हुई जिसका सही नम्बर UP16DT 0718 है।

### **अपराध कारित करने का तरीका:-**

अभियुक्त द्वारा अपने साथी दीपक के साथ मिलकर कम्प्यूटर द्वारा फर्जी आधार कार्ड व फर्जी आर.सी. तैयार कर OLX पर अपनी फर्जी आईडी बनाकर वैगनआर कार नं0 UP16DT 0718 पर फर्जी नम्बर प्लेट NO. UP80DJ 2750 लगाकर व अपने फर्जी आधार पर नोटरी तैयार कराकर उस नोटरी पर फर्जी हस्ताक्षर करके उपरोक्त वैगनआर कार को श्री अमन द्विवेदी निवासी सी 61 गगन एन्कलेव गाजियाबाद को 01 लाख 40 हजार रुपये में बेच दी थी तथा उक्त गाडी को दिनांक 14.02.2021 को राधा आटोमोबाइल शास्त्रीनगर अम्बेडकर द्वार कविनगर से स्वयं ही चोरी कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 207/2021 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया, थाना कविनगर पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनवारण करते हुए अभियुक्त प्रशांत त्यागी पुत्र सुबोध त्यागी निवासी ग्राम देहरी गुर्जर थाना आमदपुर जिला अमरोहा को गिरफ्तार किया गया, जिसके साथी दीपक की तलाश की जा रही है। अभियुक्त गण द्वारा उक्त धोखाधड़ी व OLX पर फर्जी

आईडी , नकली आधार कार्ड बनाने के सम्बन्ध में थाना कविनगर पर मु0अ0सं0 319/2021 धारा 420/467/468/471/34 भादवि पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त गण के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

#### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –**

1. अभियुक्त प्रशांत त्यागी पुत्र सुबोध त्यागी निवासी ग्राम देहरी गुर्जर थाना आमदपुर जिला अमरोहा उम्र 23 वर्ष शिक्षा 12वीं पास।

#### **बरामदगी का विवरण –**

1. वैगनआर कार नं0 UP80DJ 2750 (फर्जी नम्बर) बरामद हुई जिसका सही नम्बर UP16DT 0718 है।

#### **पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

- 1- मु0अ0सं0 207/2021 धारा 379/411/482 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।
- 2- मु0अ0सं0 319/2021 धारा 420/467/468/471/34 भादवि थाना कविनगर गाजियाबाद।  
अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।



### **#आपरेशन420गाजियाबाद #Operation420Gzb के तहत थाना लिंकरोड पुलिस द्वारा वांछित अभि0 गिरफ्तार**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित अपराधियों अभियान 420 के अन्तर्गत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निर्देशन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी साहिबाबाद महोदय के सफल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना लिंकरोड जनपद गाजियाबाद के नेतृत्व में दिनांक 02.03.2021 को थाना लिंक रोड पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त के काफी समय से वांछित चल रहे अभियुक्त रणवीर सिंह पुत्र श्यमावीर सिंह यादव नि0 ग्राम धोर्ला थाना एत्मातपुर जनपद आगरा को गिरफ्तार किया गया।

#### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

1. रणवीर सिंह पुत्र श्यमावीर सिंह यादव नि0 ग्राम धोर्ला थाना एत्मातपुर जनपद आगरा

#### **अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

मु0अ0सं0 0268/2020 धारा 420/406/120बी भादवि थाना लिंक रोड गाजियाबाद

#### **अपराध करने का तरीका :-**

अभि0 द्वारा Aber Pharma कम्पनी के नाम से 3M मास्क के आर्डर लेकर आर्डर के 18,58,500/- रुपये लेकर कम्पनी द्वारा न तो माल की स्प्लाई की गई और न ही कोई जवाब दिया गया।



## **थाना मुरादनगर क्षेत्र मे हुई तांत्रिक हत्याकाण्ड का षडयंत्र रचने वाला एक और अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 19/02/2021 को जान मोहम्मद द्वारा ने सुचना दी की दिनांक 19/2/21 को समय करीब 10.30 बजे एक अज्ञात व्यक्ति ने जिसने काले कपडे पहने हुए थे मेरे पिता आस मौहम्मद की तलवार से काट कर हत्या कर दी है। तथा हत्या के बाद तलवार तथा बाइक होन्डा साइन लेकर फरार हो गया। जिसके सम्बन्ध मे मु0अ0स0 99/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया। उक्त घटना में वांछित चल रहे अभियुक्त को आज दिनांक 02.03.2021 को काली मस्जिद के पास से अभियुक्त मुस्तकीम अहमद पुत्र जिया बुल हक नि0 गांव सुआलदा मजुहा थाना नरपतगंज जिला अररिया बिहार हाल पता- राबली रोड छोटा बिजली घर काली मस्जिद के पास कस्बा व थाना मुरादनगर गा0बाद को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### **पूछताछ विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया कि मैं करीब 12-13 साल से दमदुवा (तांत्रिक झाडफूक) का काम करने लगा था जिसमे सभी स्त्री पुरुष व बच्चे पर ऊपरी हवा, जिन्न का छाया हो जाता है और वो परेशान रहने लगते है उनका मैं इलाज ताबिज पढके एवं पानी पढके देते हैं उसके बाद उनको चार पाच वार आना पढता है और ठीक हो जाते है मेरे पास इलाज हेतु एक हफते में 40-50 आदमी/औरते/बच्चे आ जाते हैं गंदे नाला पुलिया के पास नया नूरगंज कस्बा मुरादनगर में आस मौहम्मद नाम का भी एक व्यक्ति तांत्रिक/झाड फूक ऊपरी हवा का काम करता था उसके पास भी ज्यादा औरते जाती थी उनके ऊपर मंत्र से ऊपरी हवा का चक्कर डाल देता था और उन औरतो की खोपडी घूम जाती थी उसके बाद उनके साथ गलत काम भी करता था। यह मैंने सुना था कि जो लोग मेरे पास आते थे वह बताते थे। और कस्बे में यह भी चर्चा भी थी कि कुछ औरतो को उसने फसा भी रखा है आस मौहम्मद के घर वाले भी इस बात को जानते थे और विरोध करते थे। उसके पास काफी लोग जाने लगे थे और मेरे पास लोगो की संख्या कम हो गयी थी। और मेरे इस काम को लोग उसकी वजह से गंदी नजर से देखने लगे थे। मैंने कई बार कोशिश की कि यह यहां से कही चला जाये। घटना के 20-25 दिन पहले मेरे पास सलमान अपनी पत्नी को लेकर आया था उसकी पत्नी पर ऊपरी हवा का चक्कर था उसने बताया था कि उसका इलाज आस मौहम्मद मुल्ला जी ने किया है उसने उसको मंत्र पढकर कब्जे में कर लिया है। मैंने देखा तो मैंने उसको बताया कि तेरी पत्नी पर ऊपरी हवा का साया है मैंने उसको ताबिज व पानी पढकर दिया था और उससे कहा था कि आस मौहम्मद द्वारा दिये गये ताबिज फैंक देना और मैंने उससे कहा था कि आस मौहम्मद गंदा आदमी है औरतो के ऊपर मंत्र पढकर ऊपरी हवा का साया कर देता है और वह अपने कब्जे में कर लेता है फिर उसके साथ गंदा काम भी करता है उसके 8-10 दिन बाद सलमान अकेला मेरे पास आया मैं उस समय मदरसे में था उसने बताया कि मेरी औरत की तबियत ठीक नहीं है और मेरी पत्नी ने मुझे बताया है कि आस मौहम्मद ने मेरे साथ गलत काम किया है जब सलमान ने यह बात बताई तो मेरे दिमाग में यह आया कि आस मौहम्मद को दुनिया से विदा करने का अच्छा मौका है क्यों न आस मौहम्मद को खत्म करवा दिया जाये। क्योंकि आस मौहम्मद की वजह से मेरे पास लोगो का आना कम हो गया था और मेरे इस काम की बदनामी भी हो रही थी फिर मैंने आस मौहम्मद की हत्या करने की योजना बनाई और मैंने उस योजना के तहत सलमान से कहा कि भाई आस मौहम्मद जबतक मंत्र पढता रहेगा तबतक तेरी औरत ठीक नहीं होगी और तुम्हारे ऊपर भी ऊपरी हवा का चक्कर हो सकता है ऐसे आदमी का एक ही इलाज है कि उसका धड नंगी तलवार से अलग कर दिया जाये तो तुम्हारी औरत के ऊपर से ऊपरी हवा का साया खत्म हो सकता है और तुम भी चैन से रह सकते हो। और मेरे षडयंत्र से राजी हो गया और मैंने उसको बताया कि तलवार ले जाकर आस मौहम्मद को खींचकर गर्दन काट देनी है और इसी योजना के तहत उसने इस कार्य को अंजाम दे दिया।

**अभियुक्त का नाम पता:** - मुस्तकीम अहमद पुत्र जिया बुल हक नि0 गांव सुआलदा मजुहा थाना नरपतगंज जिला अररिया बिहार हाल पता- राबली रोड छोटा बिजली घर काली मस्जिद के पास कस्बा व थाना मुरादनगर गा0बाद

### **आपराधिक इतिहास –**

1. मु0अ0स0 99/21 धारा 302 भादवि





### **हरियाणा मार्का अवैध देशी शराब के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार ।**

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 01.03.21 समय 20.30 बजे थाना भोजपुर क्षेत्र में चैकिंग के दौरान बस स्टैंड भोजपुर से एक व्यक्ति अंकित पुत्र राकेश कुमार नि0 वार्ड नं0 01 बाल्मिकी बस्ती कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गा0बाद को गिरफ्तार किया गया । अंकित उपरोक्त की तलाशी ली गयी तो इसके हाथ में लटके थैले से 24 पक्के हरियाणा मार्का देशी शराब के बरामद हुए ।

#### **अपराध कारित करने का तरीका: -**

कड़ाई से पूछताछ करने पर पकड़े गये अभियुक्त अंकित उपरोक्त ने बताया कि मैं ये शराब बेचकर पैसे कमा लेता हूँ ।

#### **नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

अंकित पुत्र राकेश कुमार नि0 वार्ड नं0 01 बाल्मिकी बस्ती कस्बा फरीदनगर थाना भोजपुर गा0बाद ।

#### **पंजीकृत अभियोग का विवरण:-**

मु0अ0सं0 61/21 धारा 60/63 आबकारी अधि0 थाना भोजपुर, गा0बाद ।

#### **बरामदगी का विवरण:-**

24 पक्के हरियाणा मार्का देशी शराब

